

**D.A.V.POLICE PUBLIC SCHOOL, FARIDABAD**

**SUMMER ASSIGNMENT**

**2021-2022**

**STAY HOME**




**STAY SAFE**


@ashsgreen

# ENGLISH

- To improve vocabulary and speaking skills watch animated movies during vacations. Some names of movies are.
  - a. Moana
  - b. Zootopia
  - c. Toy Story
  - d. The Lion King
  - e. Ice age
- Write one page of writing daily. Purchase a separate notebook of English of at least 40 pages.( use print writing )



- Learn two stories in English with the help of props.



- Theme of stories should be value Education (Refer the picture given below).



- Learn the following poems and make some props to present.

### Open A Book

Open a book  
And you will find,  
People and places of every kind;  
Open a book  
And you can be,  
Anything you want to be;  
Open a book  
And you can share,  
Wondrous words you find in there  
Open a book  
And I will too,  
You read to me,  
And I'll read to you!

I am  
a tree who  
reaches out to you  
with love I'll share.  
I am here to embrace,  
my branches of tenderness.  
I am a tree which extends,  
water me in tender care  
As I stand by your side  
extending my heart always.



# My Missing Shoe


I looked for you by the front door,  
Under my bed, on the bathroom floor,  
Near the back stairs, in the drawer with my socks,  
Next to the table, and out in the sandbox.  
My mother is calling me, and I'm calling you,  
Where have you gone, my missing shoe?

by Kate Miller-Wilson


YOUR  
DICTIONARY

## हिंदी

➤ एक पेज सुलेख का रोज लिखिए। एक 40 पेज की अलग कॉपी बनाए ।



➤ कोई भी दो कहानियाँ पंचतंत्र से याद कीजिये । (sample for making props)



➤ दी गयी कवितायें लय के साथ याद करें व कुछ सामग्री के साथ प्रस्तुत करें ।

## धरती और मानव

भूमि , धरती , भू , धरा ,  
तेरे हैं ये कितने नाम ,  
तू थी रंग- बिरंगी ,  
फल फूलों से भरी - भरी ,  
तूने हम पर उपकार किया ,  
हमने बदले में क्या दिया ?  
तुझसे तेरा रूप है छीना ,  
तुझसे तेरे रंग हैं छीने ,  
पर अब मानव है जाग गया ,  
हमने तुझसे ये वादा किया ,  
अब ना जंगल काटेंगे ,  
नदियों को साफ़ रखेंगे ,  
लौटा देंगे तेरा रंग रूप ,  
चाहे हो कितनी बारिश और धूप ।




## कविता - पेड़

अगर पेड़ भी चलते होते  
कितने मजे हमारे होते ।  
बाँध तने में उसके रस्सी  
चाहे जहां कहीं ले जाते ।

जहां कहीं भी धूप सताती  
उसके नीचे झट सुस्ताते,  
जहाँ कहीं वर्षा हो जाती  
उसके नीचे हम छिप जाते ।

लगती जब भी भूख अचानक  
तोड़ मधुर फल उसके खाते,  
आती कीचड़, बाढ़ कहीं तो  
झट उसके ऊपर चढ़ जाते ।

अगर पेड़ भी चलते होते  
कितने मजे हमारे होते ।







10/5/21  
Day


Page :  
Date :

Number		Number Name	
( 1 - 10 )			
1	0		
	1	One	
	2	Two	
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
1	0		

Number		Number Name	
1	0		
2	1	Twenty	one
2	2	Twenty	two

❖ Make a robot using different shapes and paste it on a

pastel sheet of A4 size.



- **Make a face by cutting and pasting different shapes and numbers and also colour it using thumb painting(Sample attached).**



# E.V.S

- Make a working model on safety tips on COVID-19 ,which we should follow to keep ourselves safe from viruses.

Click on the Link for help:-

<https://youtu.be/HxS1kD3I37s>

- Make a collage on Healthy Habits or any one habit with prop and speak 6-8 lines about it.



# ART – CRAFT

Students are required to make and decorate a mother's day card.

[https://youtu.be/C4R\\_qrtVLqI](https://youtu.be/C4R_qrtVLqI)

## Pinwheel using Paper

Students are required to make a pinwheel using paper. They may take help from the assigned video.

[https://youtu.be/Yth6\\_O6ShPc](https://youtu.be/Yth6_O6ShPc)

# YOGA

Practice these yoga asans daily from the videos

- 1) Uttanasana  
<https://youtu.be/WkIJNYaayP8>
- 2) Prasrita Padottanasana  
<https://youtu.be/x3YE8Yd50Ls>
- 3) Ardha chandrasana  
<https://youtu.be/bgisz6FZXZ8>
- 4) Trikonasana  
<https://youtu.be/PSt9gZJgWkE>
- 5) Virabhadrasana  
<https://youtu.be/CagNyvAFZh4>
- 6) Utkatasana  
<https://youtu.be/5b6X5KkEi1g>
- 7) Tadasana  
<https://youtu.be/YkreKMGM8GU>

# MUSIC

Learn this prayer and practice at home.

<https://youtu.be/G7kGEnffBY>

# LIBRARY

Make a beautiful book mark

# Mother's Day Activity

Mother's are very special gift of god on this planet, So to make them realize how special they mean to their children.

We are celebrating mother's day to honor them by performing something t make them happy:-

1. Perform a dance with your mother and gift her a handmade **CROWN**
2. Cook something special
3. Click a picture with your mother showing your gesture of love.
4. Make a card to present her(Compulsory for all the students)
5. Submit your Mother's day Activities by **6<sup>th</sup> May,2021 positively.**

# HAPPY MOTHER'S DAY